



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 52| नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 27—जनवरी 2, 2004 (पौष 6, 1925)

No. 52| NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 27—JAN. 2, 2004 (PAUSA 6, 1925)

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं  
Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

अन्तरिक्ष विभाग

नैयम्बर-559094, दिनांक 10 दिसम्बर 2003

सं० 14/7/4/98-I(VI)—अन्तरिक्ष विभाग में श्री व० ब० मट्टू, सी० प्र० से० (ए० जे० एम० न्यू: 76) ने अपने प्रत्यावर्तन के परिणामस्वरूप दिनांक 10 दिसम्बर 2003 के अपराह्न से संयुक्त सचिव पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

कारों) को कृषि और सहकारिता विभाग में रिपोर्ट करने के लिए दिनांक 27-11-2003 (अ० रा०) से कार्यभार मुक्त किया जाता है।

के० के० छावड़ा, अवर सचिव

दिनांक 08 दिसम्बर 2003

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 27 नवम्बर 2003

सं० ए-19(674)/93-प्रशा० II—कृषि और सहकारिता विभाग में कन्द्रीय प्रतिनियुक्ति आधार पर कर्तव्य करने अवधि के लिए उप सचिव के रूप में नियुक्ति के लिए चयन होने के परिणामस्वरूप योजना आयोग में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी श्री सुनील सरन (आईईएस के ग्रेड III अधि-

1-382 GI/2003

सं० ए 31013/2/2001-प्रशा० II—योजना आयोग की दिनांक 31-7-2000 की अधिसूचना सं० ए-19(797)/2000-प्रशा० II के क्रम में, राष्ट्रपति, योजना आयोग में डॉ० रामानन्द, अनुसंधान अधिकारी (मानवट्रैनिंग कृषि) को दिनांक 25-07-2002 (पूर्वाह्न) से मूलपद क्षमता में नियुक्त करते हैं।

के० के० छावड़ा, अवर सचिव

## विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 दिसम्बर 2003

सं. के० 13018/5/2003-यू० एस० I—भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, (1) श्री कांतिलाल अंबालाल पूज तथा (2) श्री जयंत मगनलाल पटेल को उसी वरीयता क्रम में दिनांक 3 दिसम्बर, 2003 से दो वर्ष की अवधि के लिए गुजरात उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ० पी० के० सेठ, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 2003

सं० I-14012/17/2003-आई०पी०एस०-IV—राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित परीक्षाधीन अधिकारियों का त्यागपत्र प्रत्येक के नाम के समक्ष उल्लिखित तारीख से स्वीकार करते हैं :—

क्रम सं०	नाम	त्यागपत्र की तारीख
	सर्वश्री	
1.	रजत अग्रवाल आई पी एस (गुजरात : 2002)	31-08-2003
2.	सौरभ राव आई पी एस (उत्तरांचल : 2002)	31-08-2003

जे० बी० कौशिक, डेस्क अधिकारी

नई दिल्ली, दिनांक 12 दिसम्बर 2003

सं० 14046/41/2003-यू टी एस-I—भारतीय प्रशासनिक सेवा (1981 बैच) के अरुणांचल प्रदेश - गोवा - मिजोरम - संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग के सदस्य श्री तीर्तेश कुमार गठवाल का 4 नवम्बर, 2003 को निधन हो गया है।

के० के० कालरा, अवर सचिव

## विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 जून 2002

सं० क्यू/पीए/46/2002—भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III के अधिकारी श्री मेलकुलंगारा भद्रकुमार 10 जून, 2002 को पूर्वाह्न से सी सी एस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के अन्तर्गत सरकारी सेवा से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

संजीव रंजन, उप सचिव (एफ एस पी)

दिनांक 1 जुलाई 2002

सं० क्यू/पीए-I/50/2002—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, श्री दशोप मेहता, 30 जून, 2002 को भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

संजीव रंजन, उप सचिव (एफ एस पी)

सं० क्यू/पीए I/47/2002—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर विदेश मंत्रालय में विदेश सचिव श्रीमती चोकिला अम्बर 30 जून, 2002 को अपराह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

संजीव रंजन, उप सचिव (एफ एस पी)

सं० क्यू/पीए I/48/2002—श्री कंबल सिबल की विदेश सचिव के रूप में नियुक्ति के फलस्वरूप उन्होंने सचिव (पश्चिम) के पद का कार्यभार त्याग दिया है और 1 जुलाई, 2002 की पूर्वाह्न में विदेश सचिव के पद का कार्यभार सम्भाल लिया है।

संजीव रंजन, उप सचिव (एफ एस पी)

दिनांक 2 जुलाई 2002

सं० क्यू/पीए-I/49/2002—श्री प्रवीण लाल गोयल, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली, वर्तमान में भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I और स्विट्जरलैंड में नामित राजदूत, जिनका आवास वर्न में होगा को, लीवटेन्सटीन की प्रिंसिपलिटी में भारतीय राजदूत के रूप सह प्रत्यायित किया गया है।

संजीव रंजन, उप सचिव (एफ एस पी)

सं० ब्यू/पी ए I-51/2002--राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड II में कार्यरत श्री प्रवीण लाल गोयल को 1 जुलाई 2002 के पूर्वाह्न से सेवा के ग्रेड-I में स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	वर्तमान पद
1.	श्री प्रवीण लाल गोयल	अपर सचिव

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I में पदोन्नत के पश्चात् श्री प्रवीण लाल गोयल ने 1-7-2002 को पूर्वाह्न में विदेश सेवा के ग्रेड-II के पद प्रभार से मुक्त हो गए हैं और उन्होंने उसी तारीख के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I का पदभार संभाल लिया है।

सजीव रंजन, कृते उप सचिव (एफ एस पी)

सं० ब्यू/पी ए-I/55/2002--राष्ट्रपति, मौजूदा रूप से भारतीय विदेश सेवा ग्रेड IV में कार्यरत श्री विजय केशव गोखले को 1 जुलाई, 2002 के पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-II में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	वर्तमान पद
1.	श्री विजय केशव गोखले	निदेशक, विदेश मंत्रालय

2. भारतीय विदेश सेवा, ग्रेड-II में पदोन्नति पर श्री विजय के० गोखले 1-7-2002 के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV का पद प्रभार से मुक्त हो गए हैं और उन्होंने उसी तारीख को पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा ग्रेड-II का पदभार ग्रहण कर लिया।

सजीव रंजन, कृते अवर सचिव (एफ एस पी)

दिनांक 4 जुलाई 2002

सं० ब्यू/पी ए I-52/02--अधिवृत्ति की आयु प्राप्त होने पर श्री विद्या भूषण सोनी, यूक्रेन (कीव) में भारत के राजदूत 31 मई 2002 के अपराह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

सजीव रंजन, कृते उप सचिव (एफ एस पी)

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(अधिकार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 नवम्बर 2003

एफ०सं० 3/16/2003-करेंसी-III--राष्ट्रपति, श्री आर०सी० मोतवानी को उनकी परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी हो जाने पर 19 फरवरी, 2000 (पूर्वाह्न) से भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय/करेंसी नोट प्रेस, नासिक रोड के संयुक्त संवर्ग में 10,000-15,200 रुपए के धेतनमान में उच्च अभियन्ता (इलेक्ट्रॉनिक्स), (समूह "क" राजपत्रित) के पद पर स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त करते हैं।

ए० के० खन्ना, अवर सचिव

एफ०सं० 3/16/2003-करेंसी-III--राष्ट्रपति, श्री एस० आर० वाजपे को उनकी परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी हो जाने पर 29 अगस्त, 2002 (पूर्वाह्न) से भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय/करेंसी नोट प्रेस, नासिक रोड के संयुक्त संवर्ग में 8000-13500 रुपए के धेतनमान में सहायक मुख्य अभियन्ता (इलेक्ट्रॉनिक्स), (समूह "क" राजपत्रित) के पद पर स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त करते हैं।

ए० के० खन्ना, अवर सचिव

एफ०सं० 3/16/2003-करेंसी-III--राष्ट्रपति, श्री रूपचन्द शर्मा को उनकी परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी हो जाने पर 1 नवम्बर, 2002 से भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय, करेंसी नोट प्रेस, नासिक रोड के संयुक्त संवर्ग में 8000-13500 रुपए के धेतनमान में सहायक मुख्य अभियन्ता (इलेक्ट्रॉनिक्स), (समूह "क" राजपत्रित) के पद पर स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त करते हैं।

ए० के० खन्ना, अवर सचिव

एफ० सं० 3/16/2003-करेंसी-III--राष्ट्रपति, श्री डी० सी० परमार को उनकी परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी हो जाने पर 12 नवम्बर, 2000 (पूर्वाह्न) से भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय/करेंसी नोट प्रेस, नासिक रोड के संयुक्त संवर्ग में 8000-13500 रुपए के धेतनमान में सहायक मुख्य

अभियन्ता (यांत्रिक), (समूह "क" राजश्रित) के पद पर स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त करते हैं।

ए० के० खन्ना, अवर सचिव

एफ सं० 3/16/2003-करेंसी-III—राष्ट्रपति, निम्न-लिखित को उनके परिवोधा प्रविष्टि सहायक पूर्ण हो जाने पर उनके नाम के सामने दो गई तारोखों से भारतीय प्रतिभूति मुण्डाल/करेंसी नोट प्रैस, नासिक रोड के संयुक्त संबंध में 8000-13500 रुपए के वेतनमान में सहायक कारखाना प्रबंधक के पद पर स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	सहायक कारखाना प्रबंधक के रूप में स्थायी होने का तारोख
----------	----------------	---

सर्वश्री

- |    |                  |                      |
|----|------------------|----------------------|
| 1. | वी० पी० कमलास्कर | 29-9-2002(पूर्वाह्न) |
| 2. | अशोक कुमार       | 18-6-2003(पूर्वाह्न) |
| 3. | सुनील तिवारी     | 23-8-2003(पूर्वाह्न) |

ए० के० खन्ना, अवर सचिव

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 नवम्बर 2003

फा० सं० 6/36/2000-डी आर टी—राष्ट्रपति, ऋण वसूली अधिकरण, पुणे के कार्यालय में सहायक रजिस्ट्रार, आर० डी० नालगे की प्रतिनियुक्ति अवधि में 10,000-15,200 रु० के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति के आधार पर 10-12-2003 से 9-12-2004 तक एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ि करते हैं।

एम० के० मल्होत्रा, अवर सचिव

दिनांक 2 दिसम्बर 2003

फा० सं० 16/7/03-डी आर टी—राष्ट्रपति, यूको बैंक में उपमुख्य अधिकारी श्री जे० के० मित्रा को प्रतिनियुक्ति के आधार पर 10,000-15,200 रु० के वेतनमान में ऋण वसूली अधिकरण-III, कोलकाता के कार्यालय में 22-10-03 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश

होने तक, जो भी पहले हो, सहायक रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम० के० मल्होत्रा, अवर सचिव

दिनांक 3 दिसम्बर 2003

फा० सं० 17/1/2000-डी आर टी—राष्ट्रपति, ऋण वसूली अधिकरण, बेंगलूर के कार्यालय में वसूली अधिकारी श्री के० वी० सर्वेश्वरन की प्रतिनियुक्ति अवधि में 10,000-15,200 रु० के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति के आधार पर 19-01-2004 से 18-01-2005 तक एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए बढ़ि करते हैं।

एम० के० मल्होत्रा, अवर सचिव

दिनांक 9 दिसम्बर 2003

फा० सं० 15/13/03-डी आर टी—राष्ट्रपति, राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट और सिविल न्यायाधीश (एस डी), श्री आशुतोष कुमार मिश्रा को प्रतिनियुक्ति के आधार पर 12,750-16,500 रु० के वेतनमान में ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के कार्यालय में 21-10-2003 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो सचिव/रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम० के० मल्होत्रा, अवर सचिव

फा० सं० 15/14/03 डीआरटी—राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में संयुक्त निदेशक श्री के० सिद्धार्यन को प्रतिनियुक्ति के आधार पर 12,750-16,500 रु० के वेतनमान में ऋण वसूली अधिकरण, विशाखापट्टनम के कार्यालय में 22-10-2003 (अपराह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो सचिव/रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम० के० मल्होत्रा, अवर सचिव

फा० सं० 15/15/03-डीआरटी—राष्ट्रपति, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच, उप रजिस्ट्रार, श्री ए० के० अजयजी को प्रतिनियुक्ति के आधार पर 12,750-16,500 रु०

के वेतनमान में ऋण बसूली अधिकरण, लखनऊ के कार्यालय में 20-11-2003 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो सचिव/रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम० के० मलहोत्रा, अवर सचिव

फा० सं० 15/16/03-डीआरटी—राष्ट्रपति, श्री एम० पी० वर्गिस, आरपीएफ सी ग्रुप-II को प्रतिनियुक्ति के आधार पर 12,750-16,500 रु० के वेतनमान में ऋण बसूली अधिकरण, कोयंबटूर के कार्यालय में 23-10-2003 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो सचिव/रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम० के० मलहोत्रा, अवर सचिव

### राजस्व विभाग

#### केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 6 नवम्बर, 2003

सं० 2003 का 27

#### भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्थापना

फा० सं० ए०-39012/4/2003-प्रशा०-2—राष्ट्रपति, भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा ग्रुप "क" के निम्नलिखित अधिकारियों को जिनके नाम और पदनाम कालम 2 में और प्रभावी तारीख कालम 3 में नीचे दिया गया है, त्यागपत्र स्वीकार करते हैं :-

सारणी

क्रम सं०	नाम एवं पदनाम	दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	श्री अशोक बाबू, एसीसी-ई-वेस्वारी विभाजन	31-08-2003 (पूर्वाह्न)

(1)	(2)	(3)
2.	श्री सचिन एस० कर्, एसी जी, मुम्बई	25-08-2003 (पूर्वाह्न)
3.	श्री संजय गोयल, परिवीक्षार्थी	31-08-2003 (पूर्वाह्न)
4.	श्री ए० बाबू, परिवीक्षार्थी	31-08-2003 (पूर्वाह्न)
5.	श्री पी० स्वर्ण, परिवीक्षार्थी	31-08-2003 (पूर्वाह्न)
6.	सुश्री पूजा कुलकर्णी, परिवीक्षार्थी	31-08-2003 (पूर्वाह्न)
7.	सुश्री रितु सेन, परिवीक्षार्थी	31-08-2003 (पूर्वाह्न)

के० किशोर, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 20 नवम्बर, 2003

2003 की सं० 28

#### भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्थापना

फा० सं० ए-38012/16/2003-प्रशा-2—राष्ट्रपति जी, श्री आर०यू० खराडे, सहायक सीमा शुल्क आयुक्त, मुम्बई को सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा समूह "क" से स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति को 1-12-2003 से स्वीकार करते हैं।

के० किशोर, अवर सचिव

#### केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 8 दिसम्बर 2003

फा० सं० ए-32012/16/2000 प्रशा०-VI-18—राष्ट्रपति जी, श्री बी० जी० शिन्दे (90557 ए), सहायक आयुक्त आयुक्त, पूर्ण (29-12-2002 को दिवंगत) को 22 फरवरी, 1997 से 10,000-15,200 रुपए के वेतनमान के साथ वरिष्ठ वेतनमान प्रदान करते हैं।

पी०सी० सदट, अवर सचिव

**औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण**

नई दिल्ली-110001, दिनांक 05 दिसम्बर 2003

संदर्भ सं० 1/5/98-प्रशासन मिसिल सं० 1/5/98-प्रशासन—  
इस कार्यालय की दिनांक 23-09-2002 की सप्त-संश्लेषक अधि-  
सूचना के क्रम में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के राजस्व विभाग के  
सहायक श्री राकेश कुमार सिन्हा को इस औद्योगिक और वित्तीय  
पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण में दिनांक 01-02-2003  
(पूर्वाह्न) से 31-8-2004 तक एक वर्ष की अवधि या इस  
प्राधिकरण के विलोप होने तक जो भी पहले घटित हो,  
6500-200-10500 रुपये प्रतिमाह के वेतनमान में बतौर  
खनुभाग अधिकारी प्रतिनियुक्ति के आधार पर उन्हीं शर्तों व  
विबधों के साथ नियुक्त किया जाता है।

इसे वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के नोट  
दिनांक 23-09-2003 द्वारा सङ्गति प्रदान करने पर जारी  
किया जाता है।

हनुमन्त किशोर, अवर सचिव

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 7 नवम्बर 2003

सं० 24/2003 (ए-19011/16/2003-ई-1)—राष्ट्रपति  
द्वारा श्री अभिजीत सेनगुप्ता, आई ए एस (कर्नाटक : 72) को  
वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में दिनांक  
7 नवम्बर 2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक अपर सचिव  
के पद पर नियुक्त किया जाता है।

एस० के० तुली, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 12 दिसम्बर 2003

सं० ए-20011/वी-183/ई II—राष्ट्रपति, वाणिज्य विभाग  
के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपि सेवा (सी एस एस एस) के  
प्रधान निजी सचिव, श्री बी० आर० राणा को दिनांक  
1-10-2003 (पूर्वाह्न) से 31-12-2003 अथवा नियमित  
आधार पर पद को भरे जाने अथवा अगले आदेश होने तक, जो

भी पहले हो, 12,000-375-16500 रु० के वेतनमान में इस  
विभाग में तदर्थ आधार पर वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप  
में नियुक्त करते हैं।

श्री बी० आर० राणा की वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के  
ग्रेड में प्रोन्नति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है और उन्हें इससे इस  
ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा वरिष्ठ निजी  
सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने के लिए कोई  
अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

एन० पी० द्विवेदी, उप सचिव

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 नवम्बर 2003

सं० ए-32012/1/2003-सीडीएन—राष्ट्रपति, श्री वाई०  
वी० तेलंग, निदेशक (एस एण्ड टी) को औद्योगिक नीति और  
संवर्धन विभाग के संबद्ध कार्यालय टेरिफ आयोग में  
रु० 14300-400-18300 के वेतनमान में औद्योगिक सलाहकार  
के तौर पर स्थापनापन्न रूप में कार्य करने हेतु, 9-10-2003  
(पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

पी० एल० केन, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 28 नवम्बर 2003

सं० ए-32012/1/2003-सी०डी०एन०—राष्ट्रपति, श्री  
ए० के० मक्कड़, उप निदेशक (एस० एण्ड टी०) को 18 नवम्बर,  
2003 (पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर औद्योगिक नीति और  
संवर्धन विभाग के संबद्ध कार्यालय प्रशुल्क आयोग में 12000-  
375-16500 रु० के वेतनमान में स्थापनापन्न रूप में कार्य  
करने हेतु निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

जी० एम० सिंह, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 2003

सं० 2 (18)/99-पी०पी० एण्ड सी०—समिति पंजीकरण  
अधिनियम, 1860 (1860 का 21वां अधिनियम) के तहत  
समिति के रूप में पंजीकृत राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई  
दिल्ली की नियमावली के नियम 3 के तहत भारत सरकार को  
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार उक्त नियम

के खंड (क) के तहत श्री लक्ष्मी चन्द, सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, को दिनांक 9 दिसम्बर, 2003 से श्री राजीव रत्न शाह के स्थान पर राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में मनोनित करती है।

राजीव रत्न, निदेशक

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रो रसायन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 नवम्बर 2003

सं० ए-19011/5/2001-स्था०—राष्ट्रपति, श्री मुरदीप सिंह, आई० सी० एंड सी० ई० एस० (89), उप सचिव को उप सचिव के पद को उनके लिए वैयक्तिक आधार पर पुनः पदनामित करके 21-10-2003 से उनके कार्यकाल की शेष अवधि 16-7-2006 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में निदेशक नियुक्त करते हैं।

आर० पी० वशिष्ठ, अवर सचिव

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 दिसम्बर 2003

सं० 5(4)/2001-स्थापना—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I अधिकारी श्री आई० डी० शर्मा, जो इस्पात मंत्रालय में अवर सचिव के पद पर कार्य कर रहे थे, 30-11-2003 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

बाबू राम, अवर सचिव

सं० 2(12)/2003-स्थापना—राष्ट्रपति, श्रीमती विजय लक्ष्मी नादेडला, भा० प्र० सेवा (बिहार : 95) को 2-12-2003 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इस्पात मंत्रालय में अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

बाबू राम, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 2003

सं० ए-32012/3/2003-एस० ए०—राष्ट्रपति, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (शर्करा प्रौद्योगिकी) डा० एल० पी० तिवारी

और आशुतोष बाजपेयी को राष्ट्रीय शर्करा संस्थान उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, कानपुर में 13 नवम्बर, 2003 से 10,000-325-15,200/- रु० के वेतनमान में सहायक प्रोफेसर, चीनी प्रौद्योगिकी के रूप में नियुक्त करते हैं।

बी० के० सुद, अवर सचिव

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 दिसम्बर 2003

का० सं० ए० 12011/14/2002-प्रशा०—राष्ट्रपति, श्री अनीष कुमार राय, माप विज्ञान सहायक जो इस समय तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से केंद्रीय निर्देश भानक प्रयोगशाला, गुवाहाटी में सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) के पद पर कार्यरत हैं, को 14 नवम्बर 2003 से अगले आदेशों तक 8000-275-13500 रु० के वेतनमान में नियमित आधार पर सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस० के० नायक, अवर सचिव

सं० ए-12011/14/2002-प्रशा०—राष्ट्रपति, डा० ए० के० शर्मा, माप विज्ञान सहायक जो इस समय तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से बाट तथा माप यूनिट, नई दिल्ली में सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) के पद पर कार्यरत हैं, को 14 नवम्बर 2003 से अगले आदेशों तक 8000-275-13500/- रु० के वेतनमान में नियमित आधार पर सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस० के० नायक, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 7 नवम्बर 2003

सं० ए-32011/03/2003-प्रशा० 1(ए)—सक्षम प्राधिकारी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संग्रह के निम्नलिखित स्थायी सहायकों की 6500-200-10500/- रुपये के वेतनमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में 31-10-2003 (अपराह्न) से छह मास की अवधि के लिए अथवा नियमित अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

1. श्री नरेन्द्र सिंह
2. श्री एस० डी० सिंह

टी० एम० द्विवेदी, अवर सचिव

दिनांक 11 नवम्बर 2003

सं. ए-01/14/2001-प्रशां-1 (ए)--राष्ट्रपति, डा० डी० के० पाण्डे वैज्ञानिक 'डी' को नमतीय पूरक योजना के अंतर्गत उनकी स्वस्थाने पदोन्नति पर 12000-375-16500 रुपये के वेतनमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में 1 जुलाई 2003 के पूर्वाह्न से अथवा आगामी आदेशों तक वैज्ञानिक 'डी' के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

टी० एन० द्विवेदी, अवर सचिव

सं. ए-1/14/2001-प्रशां-1 (ए)--राष्ट्रपति, निम्न-लिखित वैज्ञानिक 'डी' को नमतीय पूरक योजना के अंतर्गत उनकी स्वस्थाने पदोन्नति पर 13400-450-20000/- रु० के वेतनमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में उनके नाम के सामने दो गई तारीख से अथवा आगामी आदेशों तक वैज्ञानिक 'एफ' के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1. श्री जगदीश चन्द्र   | 11-7-2003 |
| 2. श्री रामवीर सिंह    | 1-7-2003  |
| 3. श्री भूप सिंह       | 1-7-2003  |
| 4. श्री मुबाशिर सईद    | 1-7-2003  |
| 5. श्री पी० एस० आचार्य | 1-7-2003  |

टी० एन० द्विवेदी, अवर सचिव

दिनांक 27 नवम्बर 2003

सं. ए-23012/01/02-प्रशां-1 (ए)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13 नवम्बर 2003 के आदेश सं. 21/3/03 सी० एस० 1 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के केन्द्रीय चिवालय सेवा के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को 3 अक्टूबर 03 से 8000-275-13500/- रु० का अकार्यात्मक वेतनमान सहर्ष प्रदान करते हैं। ये अधिकारी एफ आर 22 (1) (ए) (2) के अंतर्गत वेतन निर्धारण के लाभ के पात्र होंगे :-

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 1. श्री जे० के० तरिखा,   | अनुभाग अधिकारी |
| 2. श्री पूरन प्रताप,     | -वही-          |
| 3. श्री ए० बी० लाकरा,    | -वही-          |
| 4. श्री एस० साहा,        | -वही-          |
| 5. श्री डी० आर० शर्मा,   | -वही-          |
| 6. श्री बिजल कुमार,      | -वही-          |
| 7. श्री ए० के० मिश्रा,   | -वही-          |
| 8. श्री बी० के० मन्थन,   | -वही-          |
| 9. श्री एस० के० महान्त,  | -वही-          |
| 10. श्री एस० आर० गुप्ता, | -वही-          |

टी० एन० द्विवेदी, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-3, दिनांक 18 नवम्बर 2003

सं. ए-32912/3/2003-पी०-I (.)--सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निम्नलिखित अनुसंधान सहायक (पर्यावरण) को एतद्वारा अनुसंधान अधिकारी (पर्यावरण) के पद पर 6500-10500/- रु० के वेतनमान में नियमित आधार पर 30-10-2003 (पूर्वाह्न) से नियुक्त किया जाता है :-

1. डा० (श्रीमती) रुबाब जफर
2. श्री अशोक कुमार

मोहनदासन पी०, अवर सचिव

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 25 नवम्बर 2003

सं. ए-12026/7/2002 भा० व० सेवा-I--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा के ए० जी० एम० यू० टी० संवर्ग के 1986 बैच के अधिकारी योगेश (कनिष्ठ) को 8 सितम्बर 2003 अपराह्न से चार वर्ष की अवधि के लिए राज्य वन सेवा कालेज, देहरादून में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम० एल० पराशर, अवर सचिव

सं. ए-12026/7/2002 भा० व० सेवा-I--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा के केरल संवर्ग की 1987 बैच की अधिकारी श्रीमती एस० के० एस० राव, को 22 सितम्बर 2003 पूर्वाह्न से चार वर्ष की अवधि के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय (वक्षिण जोन) बंगलूर उ० वन संरक्षक के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम० एल० पराशर, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 4 दिसम्बर 2003

सं. ए-12012/14/2003 पी०-II (.)--राष्ट्रपति, श्री नरेश कुमार, आई ए एस (पू पी : 72) को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में अवर सचिव के पद पर 22,400-525-24,500/- रु० के वेतनमान में दिनांक 28 नवम्बर 2003 अपराह्न से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

जफरुल इस्लाम, अवर सचिव



दिनांक 5 दिसम्बर 2003

सं. ए. 12012/13/2003-पी-11--राष्ट्रपति, श्रीमती वीना छोटसय, भा. प्र.से. (बिहार: 72) को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर 22,400-525-24,500/- रु के वेतनमान में दिनांक 25 नवम्बर, 2003 पूर्वाह्न से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

जफरुल इस्लाम, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 8 दिसम्बर 2003

सं. ए. 12025/190/99-सी.एच.एस.-1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा. अनंता कुमार नायक की केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में परीक्षा पर नियुक्त करके उन्हें 31.07.2001 के अपराह्न से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात करते हैं।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 10 दिसम्बर 2003

सं. ए. 39012/4/2002-सी.एच.एस.-1--अपना त्यागपत्र स्वीकृत हो जाने के परिणामस्वरूप डा. ज्योति जैन ने 9.1.2003 के पूर्वाह्न से डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के अधीन केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया है ऐसा माना गया है। 25.7.2001 से आगे की अवधि अकार्य दिवस के रूप में मानी जायेगी।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं. ए. 12025/193/99-सी.एच.एस.-1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा. करण सिंह को 15-11-2002 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13,500/- रुपए के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा. करण सिंह को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं. ए. 39012/1/2003-सी.एच.एस.-1--अपना त्यागपत्र स्वीकृत हो जाने के परिणामस्वरूप डा. भरत गोपाल ने 11.2.2003 के पूर्वाह्न से डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के अधीन केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया है ऐसा माना गया है। 2.8.2002 से आगे की अवधि अकार्य दिवस के रूप में मानी जायेगी।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

2-382 GI/2003

दिनांक 11 दिसम्बर 2003

सं. ए. 12025/119/98-सी.एच.एस.-1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा. इन्द्रजीत सिंह को 26.04.1999 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13500 रुपए के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा. इन्द्रजीत सिंह को उसी तारीख से आगामी आदेशों तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं. ए. 12025/128/98-सी.एच.एस.-1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा. रूकैया हसनत को 19.1.2001 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13500 रुपए के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा. रूकैया हसनत को उसी तारीख से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। उनकी दिनांक 26.3.2001 से 25.4.2001 तक और 26.5.2001 से 15.8.2001 तक इयूटी से अनुपस्थिति की अवधि को अकार्य-दिवस के रूप में माना गया है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 नवम्बर 2003

मि.सं. ए. 19012/10/2003-ईए--आई एस एस ग्रेड-III के अधिकारी श्री एस. चन्द्ररामणि ने सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 26 सितम्बर, 2003 के आदेश सं. 12015/8/2003-आईएसएस द्वारा आईएसएस के जूनियर टाइम स्केल से सीनियर टाइम स्केल के लिए अपनी पदोन्नति होने तथा अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में नियुक्ति होने पर 10,000-325-15,200 रु के वेतनमान में 29 सितम्बर, 2003 की पूर्वाह्न से इस निदेशालय में उप निदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है।

राज कुमार, अवर सचिव

दिनांक 21 नवम्बर 2003

मि.सं. ए. 19012/8/2003-ईए--आई एस एस ग्रेड-IV के जूनियर टाइम स्केल स्तर के अधिकारी श्री वी वनलालरामसंगा ने आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 29 अगस्त, 2003 के आदेश सं. 13016/2/2003-आई एस एस द्वारा अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में अनुसंधान अधिकारी के पद पर अपनी नियुक्ति होने पर इस निदेशालय में 8,000-13,500 रु के वेतनमान में 01 सितम्बर, 2003 की पूर्वाह्न से अनुसंधान अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

राज कुमार, अवर सचिव

सं. ए. 19012/9/2003-ईए--आई एस एस ग्रेड-III के सीनियर टाइम स्तर के अधिकारी श्री भ्रिजेश कुमार तिवारी ने सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 26 सितम्बर, 2003 के आदेश सं. 12015/8/2003-आईएसएस द्वारा अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में उप निदेशक के पद पर अपनी पदोन्नति होने पर 10,000-325-15,200 रु के वेतनमान में इस निदेशालय में 29 सितम्बर, 2003 की पूर्वाह्न से उप निदेशक के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है।

राज कुमार, अवर सचिव

सं. ए. 19012/11/2003-ईए--आई एस एस ग्रेड-III अधिकारी श्रीमती रत्ना चौधरी ने सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 26 सितम्बर, 2003 के आदेश सं. 12015/8/2003-आई एस एस द्वारा आई एस एस के जूनियर टाइम स्केल से सीनियर टाइम स्केल के लिए अपनी पदोन्नति होने तथा अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में नियुक्ति होने पर इस निदेशालय में 10,000-325-15,200 के वेतनमान में 09 अक्टूबर 2003 की पूर्वाह्न से उप निदेशक के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है।

राज कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 27 नवम्बर 2003

सं. 19/134/78-विस्तार--राष्ट्रपति, श्रीमती स्नेह वधवा, संयुक्त निदेशक (महिला कार्यक्रम) विस्तार निदेशालय को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से दिनांक 31.10.2003 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त करने की अनुमति देते हैं।

रानी तलरेजा, अवर सचिव

सं. 4/4/2003-विस्तार--राष्ट्रपति, श्री बलराम सिंह, सहायक विस्तार अधिकारी को विस्तार निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में, विस्तार अधिकारी, सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" 8000-275-13500 रुपये वेतनमान के राजपत्रित पद पर दिनांक 16 अक्टूबर, 2003 पूर्वाह्न से, तदर्थ आधार पर, प्रारंभ से छह महीने की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर पद के भरे जाने तक अथवा अगला आदेश जारी होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

रानी तलरेजा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 28 नवम्बर 2003

सं. 38012/2/2003-स्था. I--राष्ट्रपति, श्री शिव नारायण सिंह, निजी सचिव, के.स.आ. से संवर्ग, कृषि एवं सहकारिता विभाग को सेवानिवृत्ति की आयु पूरी कर लेने पर 30 नवम्बर, 2003 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

के. डी. उप्रेती, अवर सचिव

दिनांक 3 दिसम्बर 2003

सं. 27/253/2003-स्था.-I--राष्ट्रपति, श्री सुनील सरन, आई.ई.एस. (92) को कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) में केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के तहत 28.11.03 के पूर्वाह्न से चार वर्षों की अवधि के लिये या आगामी आदेशों तक उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

के. डी. उप्रेती, अवर सचिव

दिनांक 11 दिसम्बर 2003

सं. 19011/380/2003-स्था.-V--राष्ट्रपति, डा. आर. एस. सैनी, उपायुक्त (फसल) का 12 नवम्बर, 2003 के पूर्वाह्न से सरकारी सेवा से त्यागपत्र स्वीकार करते हैं।

के. डी. उप्रेती, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 नवम्बर 2003

सं. ए-12025/5/96-स्था.-I--राष्ट्रपति द्वारा श्री ए. के. शुक्ला, भारतीय वन सेवा (ए.जी.एम. यू.टी: 86) को 14.11.2003 के पूर्वाह्न से चार वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, ग्रामीण विकास मंत्रालय में उप सहायक (वानिकी) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

एच. सी. बावेजा, अवर सचिव

दिनांक 3 दिसम्बर 2003

सं. ए-12022/8/2003-स्था.-I--राष्ट्रपति द्वारा डा. (श्रीमती) रंजना गुप्ता, भारतीय वन सेवा (ए.एम: 86) को 25.11.2003 के पूर्वाह्न से 5 वर्षों की सामान्य अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, ग्रामीण विकास मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाता है।

एच. सी. बावेजा, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 20 नवम्बर 2003

सं. ए-12022/3/2003-स्था.-राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 6 नवम्बर, 2003 के आदेश सं. 4/25/2003-ई.ओ. (एम.एम.-1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय सेवा की सुश्री मुद्गल जैन को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में 6 नवम्बर, 2003 के पूर्वाह्न से 28 फरवरी, 2006 तक अथवा अगले आदेशों तक निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

एल. सी. मेहरा, अवर सचिव

दिनांक 28 नवम्बर 2003

सं.-19011/7/2000-स्था.--राष्ट्रपति इस मंत्रालय के श्री सी. एम. मल्होत्रा, पी पी एस (तदर्थ) की स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए उनके विकल्प तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसकी स्वीकृति होने पर सरकारी सेवा से 01 दिसम्बर, 2003 के पूर्वाह्न से सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं।

एल. सी. मेहरा, अवर सचिव

दिनांक 8 दिसम्बर 2003

सं. ए-12022/3/2003-स्था.-राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 30.10.2003 के आदेश संख्या 5.8.2001-रा.भा. (सेवा) के अनुसरण में, श्री अमरनाथ ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में 17 नवम्बर, 2003 (पूर्वाह्न) से 12000-375-16500 रुपये के वेतनमान में संयुक्त निदेशक (रा.भा.) के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया।

एल. सी. मेहरा, अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 दिसम्बर 2003

सं. ए-12034/2/99-स्था. (जनजातीय कार्य मंत्रालय)--राष्ट्रपति, श्री रविन्द्र कुमार पटेल को जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल ओराम) के प्रथम वैयक्तिक सहायक के पद से 30.11.2003 से कार्यमुक्त करते हैं।

सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 25 नवम्बर 2003

सं. पीएफ-489/प्रशा.-I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर श्री पी. पी. रामचंद्रन, सदस्य (उत्पादन), दूरसंचार आयोग 30 नवंबर, 2003 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

मनमोहन सिंह, अवर सचिव

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 नवम्बर 2003

सं. 19(2)/2003-कार्मिक-VII--राष्ट्रपति एतद्वारा निम्नलिखित वैज्ञानिक-ई को राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र में 16400-450-20000/- रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक-एफ के पद पर तत्काल अथवा अगले आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये नियुक्त किया जाता है:—

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	कोड
1.	श्री के० के० पोद्दार	178
2.	श्री पी० के० प्रामाणिक	203
3.	सुश्री अन्ना मजुमदार	1763

कु. सुब्बैया, निदेशक

सं. 19(2)/2003-कार्मिक-VI--राष्ट्रपति एतद्वारा श्री कृष्णा प्रसाद पी०, वैज्ञानिक-ई (कर्मचारी कोड: 200) को राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र में 16400-450-20000/- रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक-एफ के पद पर तत्काल अथवा अगले आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये नियुक्त किया जाता है।

कु. सुब्बैया, निदेशक

सं. 19(2)/2003-कार्मिक-V--राष्ट्रपति एतद्वारा श्री रमेश चन्द्र पात्रा, वैज्ञानिक-ई (कर्मचारी कोड: 2723) को राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र में 16400-450-20000/- रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक-एफ के पद पर तत्काल अथवा अगले आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये नियुक्त किया जाता है।

कु. सुब्बैया, निदेशक

सं. 19(2)/2003-कार्मिक-IV--राष्ट्रपति एतद्वारा निम्नलिखित वैज्ञानिक-ई को राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र में 16400-450-20000/- रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक-एफ के पद पर तत्काल अथवा अगले आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये नियुक्त किया जाता है:—

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	कोड
1.	श्री मोइज़ हुसैन अली	186
2.	सुश्री ऊषा देव वी	1762

कु. सुब्बैया, निदेशक

सं. 19(2)/2003-कार्मिक-III--राष्ट्रपति एतद्वारा श्री घन श्याम बंसल, वैज्ञानिक-ई (कर्मचारी कोड: 1511) को राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र में 16400-450-20000/- रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक-एफ के पद पर तत्काल अथवा अगले आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये नियुक्त किया जाता है।

कु. सुब्बैया, निदेशक

सं. 19(2)/2003-कार्मिक-II--राष्ट्रपति एतद्वारा निम्नलिखित वैज्ञानिक-ई को राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र में 16400-450-20000/-

रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक-एफ के पद पर तत्काल अथवा अगले आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये नियुक्त किया जाता है।

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	कोड
1.	डा० (सुश्री) सुनन्दा बनर्जी	74
2.	श्री सचदेवा ओ पी	83
3.	सुश्री नीता वर्मा	176
4.	श्री दीपक चन्द्र मिश्रा	180
5.	डा० वी. शिवरामकृष्णैया	1013
6.	डा० जगन्नाथ दास	1303
7.	श्री नागेश शास्त्री	1305
8.	श्री सुबोध शुक्ला	1886
9.	डा० (सुश्री) रंजना नागपाल	2652
10.	श्री गिरीश कुमार गौर	2653
11.	श्री राजेश गेरा	2702
12.	श्री अन्जनी कुमार चौबे	2705
13.	सुश्री अरुणा छाबा	2706

कु. सुब्बैया, निदेशक

सं. 19(2)/2003-कार्मिक-I--राष्ट्रपति एतद्वारा निम्नलिखित वैज्ञानिक-ई को राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र में 16400-450-20000/- रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक-एफ के पद पर तत्काल अथवा अगले आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये नियुक्त किया जाता है।

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	कोड
1.	श्री के. एल. नरसिंगा राव	122
2.	डा० ए. राम मोहन राव	156
3.	सुश्री एस. भारती	2677

कु. सुब्बैया, निदेशक

नई दिल्ली-110003, दिनांक 8 दिसम्बर 2003

सं. 19(3)/2003-कार्मिक-IV--राष्ट्रपति एतद्वारा निम्नलिखित वैज्ञानिक-डी को राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र में 14300-400-18300/- रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक-ई के पद पर तत्काल अथवा अगले आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये नियुक्त किया जाता है।

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	कोड
1.	श्री आर वेंकटेश	1228
2.	श्री पी०वी० भाट	2084
3.	श्रीमती एस. जयन्ती	2511

एस. गोपालकृष्णन, संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

सं. 19(3)/2003-कार्मिक-III--राष्ट्रपति एतद्वारा श्री जोस को पुथुर, वैज्ञानिक-डी (कर्मचारी कोड: 1732) को राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र में 14300-400-18300/- रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक-ई के पद पर तत्काल अथवा अगले आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये नियुक्त किया जाता है।

एस. गोपालकृष्णन, संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

सं. 19(3)/2003-कार्मिक-II--राष्ट्रपति एतद्वारा श्रीमती के. सबिता, वैज्ञानिक-डी (कर्मचारी कोड: 1229) को राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र में 14300-400-18300/- रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक-ई के पद पर तत्काल अथवा अगले आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये नियुक्त किया जाता है।

एस. गोपालकृष्णन, संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

सं. 19(3)/2003-कार्मिक-I--राष्ट्रपति एतद्वारा निम्नलिखित वैज्ञानिक-डी को राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र में 14300-400-18300/- रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक-ई के पद पर तत्काल अथवा अगले आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये नियुक्त किया जाता है।

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	कोड
1.	श्री अजय शर्मा	187
2.	श्री रमेश चन्द्र	235
3.	श्री रवि कान्त	236
4.	श्री अविजित दत्ता	252
5.	श्री सूरज प्रकाश राजपाल	258
6.	श्री पीयूष गोयल	272
7.	श्री राजेन्द्र सेठी	287
8.	श्री संजय गर्ग	973
9.	श्री सुधीर चन्द्रा	1413
10.	श्री इन्द्रपाल सिंह सेठी	1947
11.	श्री राजीव राठी	1950

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	कोड
12.	श्रीमती अलका मिश्रा	1975
13.	श्री के. एस. नागेश	2510
14.	डा. (श्रीमती) मीनाक्षी महाजन	3711
15.	डा. ओमकार राय	3720
16.	डा. देव रतन शुक्ला	3726

एस. गोपालकृष्णन, संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

सं. 19(3)/2003-कार्मिक (xiii)—राष्ट्रपति एतद्वारा श्री एस. पी. कुलश्रेष्ठ, वैज्ञानिक-डी (कर्मचारी कोड : 1690) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र में 14300-400-18300/- रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक-ई के पद पर तत्काल अथवा अगले आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

एस. गोपालकृष्णन, संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

सं. 19(3)/2003-कार्मिक (xii)—राष्ट्रपति एतद्वारा श्री सईद फ़िरोज आदिल नकवी, वैज्ञानिक-डी (कर्मचारी कोड : 2110) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र में 14300-400-18300/- रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक-ई के पद पर तत्काल अथवा अगले आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

एस. गोपालकृष्णन, संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

सं. 19(3)/2003-कार्मिक-(xi)—राष्ट्रपति एतद्वारा श्री अजय सिंह चहल, वैज्ञानिक-डी (कर्मचारी कोड : 1948) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र में 14300-400-18300/- रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक-ई के पद पर तत्काल अथवा अगले आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

एस. गोपालकृष्णन, संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

सं. 19(3)/2003-कार्मिक (x)—राष्ट्रपति एतद्वारा श्री भारत भूषण, वैज्ञानिक-डी (कर्मचारी कोड : 291) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र में 14300-400-18300/- रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक-ई के पद पर तत्काल अथवा अगले आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

एस. गोपालकृष्णन, संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

सं. 19(3)/2003-कार्मिक (ix)—राष्ट्रपति एतद्वारा श्री दीपक बंसल, वैज्ञानिक-डी (कर्मचारी कोड : 1418) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र में 14300-400-18300/- रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक-ई के पद पर तत्काल

अथवा अगले आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

एस. गोपालकृष्णन, संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

सं. 19(3)/2003-कार्मिक (viii)—राष्ट्रपति एतद्वारा श्री शैलेश ओ. साह, वैज्ञानिक-डी (कर्मचारी कोड : 1662) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र में 14300-400-18300/- रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक-ई के पद पर तत्काल अथवा अगले आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

एस. गोपालकृष्णन, संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

सं. 19(3)/2003-कार्मिक (vii)—राष्ट्रपति एतद्वारा श्रीमती के. जे. होनराव, वैज्ञानिक-डी (कर्मचारी कोड : 1871) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र में 14300-400-18300/- रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक-ई के पद पर तत्काल अथवा अगले आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

एस. गोपालकृष्णन, संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

सं. 19(3)/2003-कार्मिक (vi)—राष्ट्रपति एतद्वारा श्री के. नारायणन, वैज्ञानिक-डी (कर्मचारी कोड : 1754) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र में 14300-400-18300/- रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक-ई के पद पर तत्काल अथवा अगले आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

एस. गोपालकृष्णन, संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

सं. 19(3)/2003-कार्मिक (v)— राष्ट्रपति एतद्वारा श्री इनीया नेहरु ई., वैज्ञानिक-डी (कर्मचारी कोड: 1482) को राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र में 14300-400-18300/- रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक-ई के पद पर तत्काल अथवा अगले आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये नियुक्त किया जाता है।

एस. गोपालकृष्णन संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

सं. 19(3)/2003-कार्मिक (xiv)— राष्ट्रपति एतद्वारा श्री इब्राहिम तालुकदार, वैज्ञानिक-डी (कर्मचारी कोड: 3714) को राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र में 14300-400-18300/- रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक-ई के पद पर तत्काल अथवा अगने आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये नियुक्त किया जाता है।

एस. गोपालकृष्णन संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

रेल मंत्रालय

दिनांक 12 दिसम्बर 2003

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 2003

सं. ई (जीपी) 2002/1/56--राष्ट्रपति जी, भारतीय रेल भंडार विभाग के निम्नलिखित 24 ग्रुप 'बी' अधिकारियों को, 15.10.2003 से, प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाई गई रेलवे/उत्पादन इकाई पर भारतीय रेल भंडार सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में मूल रूप से नियुक्त करने हेतु सहर्ष अनुमोदन प्रदान करते हैं:--

क्र.सं. अधिकारी का नाम	रेलवे/उत्पादन इकाई
2002-03 के लिए पैनल	
सर्वश्री	
1. एस.बी. महाजन	मध्य रेलवे
2. मेघ श्याम (अ.ज.जा.)	मध्य रेलवे
3. एस.सी. मर्जित (अ.जा.)	पूर्व रेलवे
4. निरंजन राय (अ.जा.)	पूर्व रेलवे
5. बी.एस. रावत (अ.जा.)	उत्तर रेलवे
6. एस.के. दास (अ.जा.)	पूर्वोत्तर रेलवे
7. बी.बी. पाल	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
8. एम. गोविंदराजू (अ.जा.)	दक्षिण रेलवे (रे.प.का. से संबंधित)
9. मेथ्यू डेनियल	दक्षिण रेलवे (रे.प.का. से संबंधित)
10. ए. बिकशापति (अ.ज.जा.)	दक्षिण मध्य रेलवे
11. बी.आर. मंडल	दक्षिण पूर्व रेलवे
12. ए.के. सैय्यद	दक्षिण पूर्व रेलवे
13. बी.एस. सलुंके (अ.जा.)	पश्चिम रेलवे
14. जे.एन. व्यास	पश्चिम रेलवे
2003-04 के लिए पैनल	
1. बी.एस. थामस	मध्य रेलवे
2. ए.पी. दूबे	मध्य रेलवे
3. के.एस. गोस्वामी	पूर्व रेलवे (चिरेका से संबंधित)
4. ए.एफ. अमलराज	दक्षिण रेलवे (रे.प.का. से संबंधित)
5. बी.एस. रंगनाथ	दक्षिण रेलवे (रे.प.का. से संबंधित)
6. टी.डी.आर. शिवमुन्नामणियम	दक्षिण रेलवे
7. ए. प्रदीप	दक्षिण रेलवे
8. चि.जी. सुदर्शन राव	दक्षिण मध्य रेलवे
9. पी. पटवारी (अ.जा.)	दक्षिण पूर्व रेलवे
10. पी. चक्रवर्ती	दक्षिण पूर्व रेलवे

आर.आर. भंडारी, सचिव, रेलवे बोर्ड

सं. ई(जीपी) 2000/1/56--राष्ट्रपति जी, भारतीय रेलों के भंडार विभाग के निम्नलिखित 3 ग्रुप "बी" अधिकारियों की उल्लिखित रेलों पर 1-7-2002 से भारतीय रेल भंडार सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में मूल रूप से नियुक्ति किये जाने का अनुमोदन करते हैं:--

क्र.सं. अधिकारियों का नाम	रेलवे
2000-2001 के लिए पैनल	
सर्वश्री	
1. आर. एम. सुतार	मध्य
2. एस. रामाकृष्णन	दक्षिण
2001-2002 के लिए पैनल	
1. ए.के. वर्मा	पूर्व

आर.आर. भंडारी, सचिव/रेलवे बोर्ड

सं. ई(जीपी) 2000/1/55--राष्ट्रपति जी, दक्षिण मध्य रेल के सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग के ग्रुप "बी" अधिकारी श्री एम. मल्लेश राव (अ.जा.) की 15-3-2002 से भारतीय रेल सिग्नल एवं दूरसंचार सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में मूल रूप से नियुक्ति किये जाने का अनुमोदन करते हैं। बहरहाल, श्री एम. मल्लेश राव (अ.जा.) 1-7-2002 से ही कनिष्ठ वेतनमान में वित्तीय लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।

2. यह अधिसूचना 18-2-2003 के समसंख्यक अधिसूचना के अधिक्रमण में है।

आर.आर. भंडारी, सचिव/रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 15 दिसम्बर 2003

सं. ई(जीआर) 1/10/1--राष्ट्रपति जी, भारतीय रेल लेखा सेवा के निम्नलिखित प्रोबेशनरों को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीख से सहर्ष नियुक्त करते हैं:--

क्र.सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1	2	3
सर्वश्री/श्री/कु.		
1.	अजीत कुमार श्रीवास्तव	10.01.2000
2.	अजीत कुमार	20.09.1999
3.	दीपा कोटनिस	20.09.1999
4.	धुबा ज्योति सेन गुप्ता	20.09.1999

1	2	3
5.	संजय बिसारिया	20.09.1999
6.	अमिता शुक्ला	20.09.1999
7.	विवेक प्रकाश त्रिपाठी	20.09.1999
8.	रणधीर सहाय	20.09.1999
9.	अनुराग कपिल	20.09.1999
10.	अजय श्रीवास्तव	20.09.1999
11.	शशि कान्त मिश्रा	10.01.2000
12.	विनय हांडे	20.09.1999
13.	जयधम अली खान	10.01.2000
14.	निलानंजन भौमिक	20.09.1999
15.	सुभाशीषा नाथ	11.01.2000
16.	अभिजीत कुमार सिन्हा	10.01.2000
17.	रोहित राज गुप्ता	10.01.2000
18.	एम आर विजि	10.01.2000

मनीष कुमार, संयुक्त निदेशक, स्था.(जीआर), (रेलवे बोर्ड)

सं. 2001/ई(जीआर)/1/33/1—राष्ट्रपति जी, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के निम्नलिखित प्रोबेशनरों को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीख से सहर्ष नियुक्त करते हैं:—

क्र.सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
	(सर्वश्री/श्री/कु.)	
1.	जितेन्द्र श्रीवास्तव	02.09.2001
2.	मो शादान जेब खान	24.12.2001
3.	राकेश कुमार मिश्रा	02.09.2001
4.	रुचिरा चटर्जी	24.12.2001
5.	आशीष मिश्रा	02.09.2001
6.	अपूर्वा अग्निहोत्री	24.12.2001
7.	अश्विनी कुमार अग्निहोत्री	02.09.2001
8.	मांचीकालापति सुरेश	10.09.2001
9.	अभिषेक कुमार	08.02.2002
10.	हेमंत कुमार	24.12.2001
11.	एस आर गांधी	24.12.2001
12.	विनय कुमार	24.12.2001
13.	शशि कुमार	02.09.2001

मनीष कुमार, संयुक्त निदेशक, स्था.(जीआर), (रेलवे बोर्ड)

सं. 99/ई(जीआर)/1/33/1—राष्ट्रपति जी, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के निम्नलिखित प्रोबेशनरों को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीख से सहर्ष नियुक्त करते हैं:—

क्र.सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
	(सर्वश्री/श्री/कु.)	
1.	माहेश्वर सिंह	20.09.1999
2.	कमलजीत	20.09.1999
3.	अच्युत नंद झा	20.09.1999
4.	देओराज कुमार मौया	05.01.2000
5.	अजीत कुमार बर्नवाल	20.09.1999

मनीष कुमार, संयुक्त निदेशक, स्था.(जीआर), (रेलवे बोर्ड)

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 दिसम्बर 2003

सं. ए-32013/6/2002-ई-11--राष्ट्रपति, श्री टी.आर. भाटिया को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली, में दिनांक 19.11.2003 (पू.) से कार्यपालक अभियंता (सिविल) के पद पर रु. 10000-325-15200/- के वेतनमान में नियुक्त करते हैं।

ए.पी. पांडी, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 2003

सं. 19/2003(मि.सं. ए-38012/1/2003-प्रशा.एक)---अधिवर्षित की आयु प्राप्त होने पर, श्री घनश्याम दास, जोकि केन्द्रिय विद्युत प्राधिकरण के केन्द्रिय विद्युत इंजीनियरी (समूह-क) सेवा में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत थे, भारत सरकार की सेवा से 30 सितम्बर 2003 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

विकास चंद्र काजला, अवर सचिव

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 नवम्बर 2003

सं. ए-11011/01/2003.सीएलएस-1-- राष्ट्रपति जी, भारतीय आर्थिक सेवा (1984) के एन.एफ.एस.जी. अधिकारी, श्री आर.के. चंडोलिया को 14300-400-18300 रुपये के वेतनमान में श्रम मंत्रालय में दिनांक 29 अक्टूबर, 2003 (अपराह्न) से अगले आदेशों तक प्रतिनियुक्ति आधार पर कल्याण आयुक्त (मु.) ग्रुप-'क' के रूप में नियुक्त करते हैं।

वाई.पी. सहगल, अवर सचिव

## DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560094, the 10th December 2003

No. 14/7/4/98-I(VI).—Consequent to his repatriation, Shri V.V. Bhat, IAS (AGMU : 76) has relinquished the charge of the post of Joint Secretary in the Department of Space with effect from the afternoon of December 10, 2003.

K.S. RAMACHANDRA, Under Secy.

## PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 27th November 2003

No. A-19(674)/93-Adm.II.—Consequent upon his selection for appointment as Deputy Secretary in the Department of Agriculture & Cooperation on Central deputation basis for a period of four years, Shri Sunil Saran (Grade III Officer of IES), Senior Research Officer, Planning Commission is relieved w.e.f. 27.11.2003 (AN) to report to the Department of Agriculture & Cooperation.

K.K. CHHABRA, Under Secy.

The 8th December 2003

No. A.31013/2/2001. Admn. II.—In continuation of Planning Commission's Notification No. A.19(797)/2000-Admn. II, dated 31.7.2000, the President is pleased to appoint Dr. Ramanand, Research Officer (Monitoring Agriculture), Planning Commission in a substantive capacity with effect from 25.07.2002 (FN).

K.K. CHHABRA, Under Secy.

## MINISTRY OF LAW &amp; JUSTICE

(DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi, the 2nd December 2003

No. K.13018/5/2003.US.I.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (1) Shri Kantilal Ambalal Puj and (2) Shri Jayant Maganlal Patel, to be Additional Judges of the Gujarat High Court, in that order of seniority, for a period of two years each with effect from December 3, 2003.

Dr. P.K. SETH, Joint Secy.

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 10th December 2003

No. I-14012/17/2003-IPS.IV.—The President is pleased to accept the resignation of the following IPS

Probationers with effect from the dates mentioned against each:

S. No.	Name	Date of Resignation
	S/Shri	
1.	Rajat Agarwal, IPS (Gujarat : 2002)	31-08-2003
2.	Saurabh Rao IPS (Uttaranchal : 2002)	31-08-2003

J.B. KAUSHISH, Desk Officer

New Delhi, the 12th December 2003

No. 14046/41/2003-UTS.I.—Shri Satish Kumar Gathwal, a member of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram—Union Territories Cadre of Indian Administrative Service (1981 Batch), expired on 4th November, 2003.

K.K. KALRA, Under Secy.

## MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 28th June 2002

No. Q/PA I/46/2002.—Shri Melkulangara Kumaran Bhadrakumar an officer in Grade-III of the IFS has retired voluntarily from Government Service under Rule 48 of the CCS (Pension) Rules, 1972 with effect from the forenoon of 10th June, 2002.

SANJIV RANJAN, Dy. Secy. (FSP)

The 1st July 2002

No. Q/PA I/50/2002.—On attaining the age of superannuation, Shri Dalip Mehta, retired from Grade I of Indian Foreign Service in the afternoon of 30th June, 2002.

SANJIV RANJAN, Dy. Secy. (FSP)

No. Q/PA I/47/2002.—On attaining the age of superannuation, Smt. Chokila Iyer, Foreign Secretary, Ministry of External Affairs retired from Grade I of Indian Foreign Service in the afternoon of 30th June, 2002.

SANJIV RANJAN, Dy. Secy. (FSP)

No. Q/PA-I/48/2002.—Consequent upon his appointment as Foreign Secretary, Shri Kanwal Sibal relinquished charge of the post of Secretary (West) and



assumed charge of the post of Foreign Secretary on the forenoon of 1st July, 2002.

SANJIV RANJAN, Dy. Secy. (FSP)

The 2nd July 2002

No. Q/PA 1/49/2002.—Shri Praveen Lal Goyal, currently Grade-I of IFS in the Ministry of External Affairs, New Delhi and Ambassador-designate to Switzerland, has been concurrently accredited as the next Ambassador of India to the Principality of Liechtenstein with residence in Berne.

SANJIV RANJAN, Dy. Secy. (FSP)

No. Q/PA-1/51/2002.—The President is pleased to appoint Shri Praveen Lal Goyal presently in the Grade II of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-I of the service with effect from the forenoon of 1st July, 2002.

S. No.	Name of the Officer	Present Position
1.	Shri Praveen Lal Goyal	Additional Secretary

2. On promotion to Grade I of IFS, Shri Praveen Lal Goyal relinquished charge of the post in Grade-II of IFS on the forenoon of 01-07-2002 and assumed charge of the post in Grade I of the IFS, with effect from forenoon of the same date.

SANJIV RANJAN, Dy. Secy. (FSP)

No. Q/PA-1/55/2002.—The President is pleased to appoint Shri Vijay Keshav Gokhale presently in the Grade IV of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-III of the service with effect from the forenoon of 1st July, 2002.

S. No.	Name of the Officer	Present Position
1.	Shri Vijay Keshav Gokhale	Director, MEA

2. On promotion to Grade III of IFS, Shri Vijay K. Gokhale relinquished charge of the post in Grade-IV of IFS on the forenoon of 01-07-2002 and assumed charge of the post in Grade III of the IFS, with effect from forenoon of the same date.

SANJIV RANJAN, Dy. Secy. (FSP)

The 4th July 2002

No. Q/PA 1/52/2002.—On attaining the age of superannuation, Shri Vidya Bhushan Soni, Ambassador of India to Ukraine (Kyiv), retired from Grade I of the

3—382 GI/2003

Indian Foreign Service on the afternoon of May 31, 2002.

SANJIV RANJAN, Dy. Secy. (FSP)

# MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 28th November 2003

F.No. 3/16/2003-Cy. III.—On his completing the probation period successfully, the President is pleased to appoint Shri R.C. Motwani as Deputy Chief Engineer (Electronics) (Group 'A'—Gazetted) carrying the pay scale of Rs. 10000—15200/- in the substantive capacity in the combined cadre of India Security Press/Currency Note Press, Nashik Road with effect from 19th February, 2000 (Forenoon).

A.K. KHANNA, Under Secy.

F. No. 3/16/2003-Cy.III—On his completing the probation period successfully, the President is pleased to appoint Shri S.R. Wajpe as Assistant Chief Engineer (Electronics) (Group 'A'—Gazetted) carrying the pay scale of Rs. 8000-13500 in the substantive capacity in the combined cadre of India Security Press/Currency Note Press, Nashik Road with effect from 29th August, 2002 (Forenoon).

A.K. KHANNA, Under Secy.

F. No. 3/16/2003-Cy.III—On his completing the probation period successfully, the President is pleased to appoint Shri Roop Chand Sharma as Assistant Chief Engineer (Electrical) (Group 'A'—Gazetted) carrying the pay scale of Rs. 8000-13500 in the substantive capacity in the combined cadre of India Security Press/Currency Note Press, Nashik Road with effect from 1st November, 2002 (Forenoon).

A.K. KHANNA, Under Secy.

F.No. 3/16/2003-Cy.III—On his completing the probation period successfully, the President is pleased to appoint Shri D.C. Parmar as Assistant Chief Engineer (Mechanical) (Group 'A'—Gazetted) carrying the pay scale of Rs. 8000-13500 in the substantive capacity in the combined cadre of India Security Press/Currency Note Press, Nashik Road with effect from 12th November, 2000 (Forenoon).

A.K. KHANNA, Under Secy.

F. No. 3/16/2003-Cy.III—On their completing the probation period successfully, the President is pleased to appoint the following Assistant Works Managers (Group 'A'—Gazetted) carrying the pay scale of Rs. 8000-13500 in the substantive capacity in the combined cadre of India Security

Press/Currency Note Press, Nashik Road with effect from the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Confirmation as Assistant Works Manager
	S/Shri	
1.	V.P. Kamlaskar	28.9.2002 (Forenoon)
2.	Ashok Kumar	18.6.2003 (Forenoon)
3.	Sunil Tiwari	23.8.2003 (Forenoon)

A.K. KHANNA, Under Secy.

(BANKING DIVISION)

New Delhi, the 25th November 2003

F. No. 6/36/00-DRT—The President is pleased to extend the deputation period of Shri R.D. Nalage, Assistant Registrar in the office of Debts Recovery Tribunal, Pune on deputation basis in the pay scale of Rs. 10,000-15,200/- for a period of one year w.e.f. 10.12.2003 to 9.12.2004 or until further orders, whichever is earlier.

M.K. MALHOTRA, Under Secy.

The 2nd December 2003

F. No. 16/7/03-DRT—The President is pleased to appoint Sh. J.K. Mitra, Deputy Chief Officer of UCO Bank to the post of Assistant Registrar in the office of Debts Recovery Tribunal-III, Kolkata on deputation basis in the pay scale of Rs. 10,000-15,200/- w.e.f. 22.10.03 (FN) for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

M.K. MALHOTRA, Under Secy.

The 3rd December 2003

F. No. 17/1/00-DRT—The President is pleased to extend the deputation term of Shri K.V. Sarweswaran, Recovery Officer in the office of Debts Recovery Tribunal, Bangalore for the period of one year w.e.f. 19.1.2004 to 18.1.2005 on deputation basis in the pay scale of Rs. 10,000-15,200/- or until further orders, whichever is earlier.

M.K. MALHOTRA, Under Secy.

The 9th December 2003.

F. No. 15/13/03-DRT—The President is pleased to appoint Sh. Ashutosh Ku. Mishra, Chief Judicial Magistrate and Civil Judge (SD) Rajasthan High Court to the post of Secretary/Registrar in the office of Debts Recovery Tribunal, Jaipur on deputation basis in the pay scale of Rs. 12,750-16,500 w.e.f.

21.10.2003 (FN) for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

M.K. MALHOTRA, Under Secy.

F. No. 15/14/03-DRT—The President is pleased to appoint Sh. K. Siddharthan, Jt. Director, Ministry of Defence to the post of Secretary/Registrar in the office of Debts Recovery Tribunal, Vishakhapatnam on deputation basis in the pay scale of Rs. 12,750-16,500 w.e.f. 22.10.2003 (AN) for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

M.K. MALHOTRA, Under Secy.

F. No. 15/15/03-DRT—The President is pleased to appoint Sh. A.K. Ajmani, Deputy Registrar, CAT, Principal Bench to the post of Secretary/Registrar in the office of Debts Recovery Tribunal, Lucknow on deputation basis in the pay scale of Rs. 12,750-16,500 w.e.f. 10.11.2003 (FN) for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

M.K. MALHOTRA, Under Secy.

F. No. 15/12/03-DRT—The President is pleased to appoint Sh. K. Bandyopadhyay, SM-IV, Bank of India to the post of Secretary/Registrar in the office of Debts Recovery Tribunal-I, Kolkata on deputation basis in the pay scale of Rs. 12,750-16,500 w.e.f. 20.10.2003 (FN) for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

M.K. MALHOTRA, Under Secy.

F. No. 15/16/03-DRT—The President is pleased to appoint Sh. M.P. Vargese, RPFC Gr. II to the post of Secretary/Registrar in the office of Debts Recovery Tribunal, Coimbatore on deputation basis in the pay scale of Rs. 12,750-16,500 w.e.f. 23.10.2003 (FN) for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

M.K. MALHOTRA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF REVENUE)

CENTRAL BOARD OF EXCISE & CUSTOMS

New Delhi, the 6th November 2003

INDIAN CUSTOMS & CENTRAL EXCISE  
ESTABLISHMENT

(No. 27 of 2003) F.No. A-39012/4/2003-Ad.II—The President is pleased to accept the resignation of the following officers of Indian Customs and Central Excise Service, Group 'A', whose names and designation are listed in column (2) along with effect from the date given column (3) of the table given below :—

Sl. No.	Name and designation	Date (A.N./F.N.)
1.	Sh. Ashok Babu. ACCE-Bellary Division	31.08.2003 (F.N.)
2.	Sh. Sachin S. Kurve, ACC, Mumbai	25.08.2003 (F.N.)
3.	Sh. Sanjay Goel, Probationer	31.08.2003 (F.N.)
4.	Sh. A. Babu, Probationer	31.08.2003 (F.N.)
5.	Sh. P. Swaroop, Probationer	31.08.2003 (F.N.)
6.	Ms. Pujā Kulkarni, Probationer	31.08.2003 (F.N.)
7.	Ms. Ritu Sain, Probationer	31.08.2003 (F.N.)

K. KIPGEN, Under Secy.

The 20th November 2003

(No. 28 of 2003) F.No. A-38012/16/2003-AD.II—The President is pleased to accept the voluntary retirement of Shri R. U. Kharade, Asst. Commissioner, of Customs, Mumbai from the Indian Customs and Central Excise Service, Group "A" w.e.f. 01.12.2003.

K. KIPGEN, Under Secy.

#### (CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

New Delhi, the 8th December 2003

#### INCOME TAX ESTABLISHMENT

(No.18) F.No. A-32012/16/2000/AD.VI—The President is pleased to grant Senior Scale with the pay scale of Rs. 10,000-15,200 to Shri B. G. Shinde (90557A), ACIT, Pune (since expired on 29-12-2002) with effect from 22nd February, 1997.

P. C. BHATT, Under Secy.

#### APPELLATE AUTHORITY FOR INDUSTRIAL AND FINANCIAL RECONSTRUCTION

New Delhi-110001, the 5th December 2003

No. 1/5/98-Admn.—In continuation of this Authority's Notification of even number dated 23.9.2002, the tenure of deputation period of Shri R. K. Sinha, a permanent Assistant of CSS of the Department of Revenue, Ministry of Finance as Section Officer in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 in the Appellate Authority for Industrial and Financial Reconstruction is further extended for a period of one year, from 1.9.2003 to 31.8.2004 or till abolition of this Authority, whichever is earlier, on the same terms and conditions.

2. This issues with the concurrence of Department of Revenue, Ministry of Finance conveyed vide their Note dt. 26.9.2003.

HANWANT KISHORE, Under Secy.

#### MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY (DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi-110011, the 7th November 2003

No. 24/2003 (A-19011/16/2003-E-I)—The President is pleased to appoint Shri Abhijit Sengupta, IAS (KN:72) as Additional Secretary in the Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce with effect from the forenoon of 7th November, 2003, until further orders.

S. K. TULI, Dy. Secy.

New Delhi, the 12th December 2003

No. A-20011/B-183/E.II—The President is pleased to appoint Shri B. R. Rana, Principal Private Secretary of the CSSS Cadre of the Department of Commerce as Senior Principal Private Secretary on ad-hoc basis in this Department with effect from 1.10.2003 (FN) to 31.12.2003 or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500.

The promotion of Shri B. R. Rana to the grade of Senior Principal Private Secretary is purely on ad-hoc basis and shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the grade of Senior Private Secretary.

N. P. DWIVEDI, Dy. Secy.

#### (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION)

New Delhi, the 17th November 2003

No. A-32012/1/2003-CDN—The President is pleased to appoint Shri Y. V. Telang, Director (S&T), to officiate as Industrial Adviser in the pay scale of Rs. 14300-400-18300 in Tariff Commission, an attached Office under the Department of Industrial Policy and Promotion, w.e.f. 9.10.2003 (FN) on regular basis.

P. L. KAIN, Dy. Secy.

New Delhi, the 17th November 2003

No. A-32012/1/2003-CDN—The President is pleased to appoint Shri A. K. Makkar, Deputy Director (S&T), to officiate as Director (S&T) in the pay scale of Rs. 12000-375-16500 in Tariff Commission, an attached Office under the Department of Industrial Policy and Promotion, w.e.f. 18.11.2003 (FN) on regular basis.

G. M. SINGH, Under Secy.

New Delhi, the 10th December 2003

No. 2(18)/99PP&C—By virtue of powers vested in the Government of India under Rule 3 of the Rules of the

National Productivity Council, New Delhi which has been registered as a Society under the Societies Registration Act, 1860 (Act XXI of 1860), Government of India is pleased to nominate under Clause (a) of the said Rule, Shri Lakshmi Chand, Secretary, Ministry of Commerce & Industry, Department of Industrial Policy & Promotion, as Chairman of the Governing Body of the National Productivity Council, New Delhi vice Shri Rajeeva Ratna Shah w.e.f. 9.12.2003.

RAJEEV RANJAN, Director

## MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

### (DEPARTMENT OF CHEMICALS & PETROCHEMICALS)

New Delhi, the 17th November 2003

No. A-19011/5/2001-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Gurdeep Singh, IC&CES (89) Dy. Secretary as Director in the Department of Chemicals and Petrochemicals by re-designating the post of Deputy Secretary to that of Director as a measure personal to him w.e.f. 21.10.2003 for the balance period of his tenure up to 16.7.2006 or until further orders, whichever event takes place earlier.

R. P. VASISHTHA, Under Secy.

## MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 2nd December 2003

No. 5(4)/2001-Estt.—On attaining the age of superannuation, Shri I. D. Sharma, Grade-I, officer of the Central Secretariat Service and working as Under Secretary, Ministry of Steel has retired from Government service on 30.11.2003.

BABOO RAM, Under Secy.

No. 2(12)/2003-Estt.—The President is pleased to appoint Ms. Vijaya Lakshmi Nadendla, IAS (BH:95) as Under Secretary in the Ministry of Steel with effect from 2.12.2003 (FN) for a period of three years or until further orders whichever is earlier.

BABOO RAM, Under Secy.

## MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

### (DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 10th December 2003

No. A-32012/3/2003-SA.—The President is pleased to appoint Dr. L. P. Tewari and Dr. Ashutosh Bajpai, Junior Technical Officers (Sugar Technology) as Assistant Professor of Sugar Technology in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200, at National Sugar Institute, Kanpur, Ministry of

Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Department of Food & Public Distribution, with effect from 13th November, 2003.

P. K. SUD, Under Secy.

## (DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 3rd December 2003

F. No. A-12011/14/2002-Estt.—The President is pleased to promote Shri Ashish Kumar Roy, Metrological Assistant and at present officiating as Assistant Director (Legal Metrology) on ad-hoc basis in the Regional Reference Standard Laboratory, Guwahati as Assistant Director (Legal Metrology) on regular basis in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 w.e.f. 14th November, 2003 and until further orders.

S. K. NAYAK, Under Secy.

No. A-12011/14/2002-Estt.—The President is pleased to promote Dr. A. K. Sharma, Metrological Assistant and at present officiating as Assistant Director (Legal Metrology) on ad-hoc basis in the Weights & Measures Unit, New Delhi as Assistant Director (Legal Metrology) on regular basis in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 w.e.f. 14th November, 2003 and until further orders.

S. K. NAYAK, Under Secy.

## MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

### (DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi-110 016, the 7th November 2003

No. A-32011/03/2003-Admn.I(A).—The Competent Authority is pleased to appoint the following permanent Assistants of CSS Cadre of the Ministry of Science and Technology as Section Officers in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- on ad-hoc basis in the Department of Science and Technology with effect from 31.10.2003 (A.N.) for a period of six months or till regular candidate joins, whichever is earlier.

1. Shri Narendra Singh

2. Shri S. D. Singh

T. N. DWIVEDI, Under Secy.

The 11th November 2003

No. A-01/14/2001-Admn.I(A).—The President is pleased to appoint Dr. D. K. Pandey Scientist 'C' as Scientist 'D' on his in-situ promotion under Flexible Complementing Scheme in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500 in the Department of Science and Technology with effect from the forenoon of 1st July, 2003 and until further orders.

T. N. DWIVEDI, Under Secy.

No. A-01/14/2001-Admn.(A).—The President is pleased to appoint the following Scientists 'D' as Scientist 'F' on their in-situ promotion under the Flexible Complementing Scheme in the scale of pay of Rs. 16,400-450-20,000 in the Department of Science and Technology with effect from the forenoon of the date as mentioned against each and until further orders:—

- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| 1. Shri Jagdish Chander | 11.07.2003  |
| 2. Shri Rambir Singh    | 01.07.2003  |
| 3. Shri Bhoop Singh     | 01.07.2003  |
| 4. Shri Mubashir Sayid  | 01.07.2003  |
| 5. Shri P. S. Acharya   | 01.07.2003. |

T. N. DWIVEDI, Under Secy.

The 27th November 2003

No. A-23012/01/02-Admn.I(A).—In pursuance of DOPT's Order No. 21/36/03, CS.I dated 13th November, 2003 the competent authority is pleased to grant the non-functional pay scale of Rs. 8000-275-13500/- to the following Section Officers of CSS in Department of Science & Technology w.e.f. 3rd October, 2003. These officers will be entitled to the benefit of pay fixation under FR 22 (1) (a) (2):—

1. Shri J. K. Trikha, S.O.
2. Shri Puran Pratap, S.O.
3. Shri A. V. Lakra, S.O.
4. Shri S. Saha, S.O.
5. Sh. D. R. Sharma, S.O.
6. Shri Bimal Kumar, S.O.
7. Shri M. K. Mishra, S.O.
8. Shri B. K. Manthan, S.O.
9. Shri B. K. Mahanta, S.O.
10. Shri S. R. Gupta, S.O.

T. N. DWIVEDI, Under Secy.

#### MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi-110003, the 18th November 2003

No. A-32012/3/2003-P.I.(.)—With the approval of the competent authority, the following Research Assistants (Environment) are hereby appointed as Research Officer (Environment) in the pay scale of Rs. 6500-10,500/- on regular basis w.e.f. 30.10.2003 (FN):

1. Dr. (Mrs.) Rubab Jaffer
2. Shri Ashok Kumar.

MOHANDASAN P., Under Secy.

New Delhi-110003, the 25th November 2003

No. A-12026/7/2002-IFS.I.—The President is pleased to appoint Shri Yogesh (Junior), an officer belonging to the 1986 batch of AGMUT cadre of the Indian Forest Service, to the post of Lecturer in the State Forest Service College, Dehra Dun with effect from the afternoon of 8th September, 2003 for a period of four years.

M. L. PARASHAR, Under Secy.

No. A-12026/7/2002-IFS.I.—The President is pleased to appoint Smt. S.K.S. Rao, an officer belonging to the 1987 batch of Kerala Cadre of the Indian Forest Service, to the post of Deputy Conservator of Forests in the Regional Office (Southern Zone), Ministry of Environment & Forests, Bangalore with effect from the forenoon of 22nd September, 2003 for a period of four years.

M. L. PARASHAR, Under Secy.

New Delhi, the 4th December 2003

No. A-12012/14/2003.P.II.(.)—The President is pleased to appoint Shri Naresh Dayal, IAS (UP : 72), as Additional Secretary in the scale of Pay of Rs. 22400-525-24500/- in the Ministry of Environment & Forest with effect from the forenoon of the 28th November, 2003.

ZAFRUL ISLAM, Under Secy.

The 5th December 2003

No. A-12012/13/2003.P.II.(.)—The President is pleased to appoint Mrs. Veena Chhotray, IAS (BH : 72), as Additional Secretary in the scale of Pay of Rs. 22400-525-24500/- in the Ministry of Environment & Forests with effect forenoon of the 25th November, 2003.

ZAFRUL ISLAM, Under Secy.

#### MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-110011, the 8th December 2003

No. A.12025/190/99-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Ananta Kumar Naik to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in a temporary capacity with effect from afternoon of the 31.07.2001 until further orders. Dr. Ananta Kumar Naik is posted as Medical Officer under Government of National Capital Territory of Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 10th December 2003

No. A-39012/4/2002-CHS.I.—Consequent upon the acceptance of her resignation Dr. Jyoti Jain, is deemed to have relinquished the charge of the post of Senior Medical Officer of the Central Health Service under Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi on the forenoon of 9.1.2003.

2. The period from 25.7.2001 onwards has been treated as "DIES-NON".

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A-12025/193/99-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Karan Singh to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in a temporary capacity with effect from forenoon of the 15.11.2002 until further orders. Dr. Karan Singh is posted as Medical Officer under Government of National Capital Territory of Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A-39012/1/2003-CHS.I.—Consequent upon the acceptance of his resignation, Dr. Bharat Gopal is deemed to have relinquished the charge of the post of Medical Officer of Central Health Service under the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi on the forenoon of the 11.2.2003.

2. The period from 2.8.2002 onwards has been as treated as "DIES-NON".

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 11th December 2003

No. A-12025/119/98-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Indermeet Singh to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500 in a temporary capacity with effect from forenoon of the 26.04.1999. Dr. Indermeet Singh is posted as Medical Officer under Government of National Capital Territory of Delhi with effect from the same date until further orders.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A-12025/128/98-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Ruqaiya Hasnat to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in a temporary capacity with effect from forenoon of the 19.1.2001 until further orders. Dr. Ruqaiya Hasnat is posted as Medical Officer under Government of National Capital Territory of Delhi with effect from the same date. The periods of her absence from

duty from 26.3.2001 to 25.4.2001 and from 26.5.2001 to 15.8.2001 have been treated as DIES-NON.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE  
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND  
COOPERATION)

New Delhi, the 20th November 2003

No. A-19012/10/2003-EA.—Consequent upon his promotion from Junior Time Scale to Senior Time Scale of ISS and his posting in the Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Cooperation, vide Ministry of Statistics and Programme Implementation's order No. 12015/8/2003-ISS dated 26th September, 2003; Shri S. Chandiramani, Grade-III-ISS, has assumed the charge of the post of Deputy Director in the Directorate in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200 with effect from the forenoon of 29th September, 2003.

RAJ KUMAR, Under Secy.

The 21st November 2003

No. A-19012/8/2003-EA.—Consequent upon his posting as Research Officer in the Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Cooperation, vide Department of Economic Affairs order No. 13016/2/2003-IES dated 29th August, 2003; Shri C. Vanlalramsanga a Junior Time Scale Level Officer of Grade-IV-IES, has assumed the charge of the post of Research Officer in the Directorate in the pay scale of Rs. 8,000—13,500 with effect from the forenoon of 1st September, 2003.

RAJ KUMAR, Under Secy.

No. A-19012/9/2003-EA.—Consequent upon his promotion as Deputy Director in the Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Cooperation, vide Ministry of Statistics and Programme Implementation's order No. 12015/8/2003-ISS dated 26th September, 2003; Shri Dhrijesh Kumar Tiwari a Senior time scale level Officer of Grade-III-ISS, has assumed the charge of the post of Deputy Director in the Directorate in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of 29th September, 2003.

RAJ KUMAR, Under Secy.

No. A-19012/11/2003-EA.—Consequent upon her promotion from Junior Time Scale to Senior Time Scale of ISS and her posting in the Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Cooperation, vide Ministry of Statistics and Programme Implementation's order No. 12015/8/2003-ISS dated 26th September, 2003; Smt. Ratna Chowdhury, Grade-III-ISS, has assumed the charge of

the post of Deputy Director in the Directorate in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of 9th October, 2003.

RAJ KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 27th November 2003

No. 19-134/78-Ext.—The President is pleased to permit Smt. Sneha Wadhwa, Joint Director (WP), in the Directorate of Extension, Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture, to retire from Government Service, on attaining the age of superannuation, with effect from the afternoon of 31st October, 2003.

RANI TALREJA, Under Secy.

No. 4-4/2003-Ext.—The President is pleased to appoint Shri Balram Singh, Assistant Extension Officer as Extension Officer, G.C.S., Group "A", Gazetted in the pay scale of Rs. 8000-275-13,500/- in the Directorate of Extension, Department of Agriculture & Cooperation, on ad-hoc basis, with effect from the forenoon of 16/10/03, initially for a period of six months or till the post is filled up on regular basis or until further orders whichever is earlier.

RANI TALREJA, Under Secy.

New Delhi, the 28th November 2003

No. 38012/2/2003-E.I.—The President is pleased to retire Shri Shiv Narain Singh, Private Secretary of the CSSS Cadre of the Department of Agriculture and Cooperation, from Government service with effect from the afternoon of 30th November, 2003 on attaining the age of superannuation.

K. D. UPRETI, Under Secy.

The 3rd December 2003

No. 27-2531/2003-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Sunil Saran, IES (92), as Deputy Secretary in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation) in the pay scale of Rs. 12,000-16,500/- under Central Staffing Scheme for a period of four Years with effect from the forenoon of 28.11.2003 until further orders..

K. D. UPRETI, Under Secy.

The 11th December 2003

No. 19011/380/2003-E.V.—The President is pleased to accept the resignation of Dr. R. S. Saini, Deputy Commissioner (Crops) from Government service w.e.f. the afternoon of 12th November, 2003.

K. D. UPRETI, Under Secy.

## MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 19th November 2003

No. A-12025/5/96-Estt.I.—The President is pleased to appoint Shri A. K. Shukla, IFS (AGMUT.: 86) to the post of Deputy Adviser (Forestry) in the Ministry of Rural Development with effect from the forenoon of 14-11-2003 for a period of four years or until further orders, whichever event occurs the earlier.

H. C. BAVEJA, Under Secy.

The 3rd December 2003

No. A-12022/8/2003-Estt.I.—The President is pleased to appoint Dr. (Mrs.) Ranjana Gupta, IFS (AM : 86), as Director in the Ministry of Rural Development with effect from the forenoon of 25.11.2003 for a normal tenure of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

H. C. BAVEJA, Under Secy.

## MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

New Delhi, the 20th November 2003

No. A-12022/3/2003-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 4/25/2003-EP(MM.I) dated 6th November 2003, the President is pleased to appoint Ms. Mridul Jain, CSS as Director in the Ministry of Social Justice and Empowerment w.e.f. the forenoon of 6th November 2003 till 28th February 2006 or until further orders, whichever is earlier.

L. C. MAHRRA, Under Secy.

The 28th November 2003

No. A-19011/7/2000-Estt.—On his option for Voluntary Retirement and on acceptance of the same by the Competent Authority, the President is pleased to permit Shri C.M. Malhotra, PPS (Ad-hoc) in this Ministry to retire from the Government Service with effect from the forenoon of 1st December 2003.

L. C. MEHRRA, Under Secy.

The 08th December 2003

No. A-19011/14/2003-Estt.—In pursuance of Official Language Order No. 5/8/2001-OL (Service), Sh. Amarnath has joined this Ministry to the post of Joint Director in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- (General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial) in the Official Language of the Ministry of Social Justice & Empowerment w.e.f. 17th November 2003 (F.N.).

L. C. MEHRRA, Under Secy.

## MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 08th December 2003

No. A-12034/2/99-Estt.(TA)—The President is pleased to relieve Shri Rabindra Kumar Patel from the post 1st PA, to the Minister of Tribal Affairs (Sh. Jai Oram) with effect from 30.11.2003 (A.N.).

S. K. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND  
INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 25th November 2003

No. PF-489/Admn.I—On attaining the age of superannuation, Shri P. P. Ramachandran, Member (Production), Telecom Commission shall stand retired from Government service with effect from the afternoon of 30th November, 2003.

MAN MOHAN SINGH, Under Secy.

DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY  
NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 18th November 2003

No. 19(2)/2003-Pers.(vii)—The President is pleased to appoint the following Scientist-E to officiate as Scientist-F in the pay scale of Rs. 16,400-450-20,000/- in National Informatics Centre with immediate effect and until further orders :—

Sl. No.	Employee Name	Code
1.	Shri K. K. Poddar	178
2.	Shri P. K. Pramanik	203
3.	Ms. Anna Majumdar	1763

K. SUBBIAH, Director

No. 19(2)/2003-Pers.(vi)—The President is pleased to appoint Shri Krishna Prasad P., Scientist-E (Employee Code : 200) to officiate as Scientist-F in the pay scale of Rs. 16,400-450-20,000/- in National Informatics Centre with immediate effect and until further orders.

K. SUBBIAH, Director

No. 19(2)/2003-Pers.(v)—The President is pleased to appoint Shri Ramesh Chandra Patra, Scientist-E (Employee Code : 2723) to officiate as Scientist-F in the pay scale of Rs. 16,400-450-20,000/- in National Informatics Centre with immediate effect and until further orders.

K. SUBBIAH, Director

No. 19(2)/2003-Pers.(iv) :—The President is pleased to appoint the following Scientist-E to officiate as Scientist-F in the pay scale of Rs. 16400-450-20000/- in National Informatics Centre with immediate effect and until further orders:

Sl. No.	Employee Name	Code
1.	Shri Moiz Hussain Ali	186
2.	Ms. Usha Deo V.	1762

K. SUBBIAH, Director

No. 19(2) 2003-Pers.(iii).—The President is pleased to appoint Shri Ghan Shyam Bansal, Scientist-E (Employee Code: 1511) to officiate as Scientist-F in the pay scale of Rs. 16400-450-20000/- in National Informatics Centre with immediate effect and until further orders.

K. SUBBIAH, Director

No. 19(2)/2003-Pers.(ii).—The President is pleased to appoint the following Scientist-E to officiate as Scientist-F in the pay scale of Rs. 16400-450-20000/- in National Informatics Centre with immediate effect and until further orders:

Sl. No.	Employee Name	Code
1.	Dr. (Ms.) Sunanda Banerjee	74
2.	Shri Sachdeva O. P.	83
3.	Ms. Neeta Verma	176
4.	Shri Deepak Chandra Misra	180
5.	Dr. V. Sivaramakrishnaiah	1013
6.	Dr. Jagannath Dass	1303
7.	Shri Nagesh Shastri	1305
8.	Shri Subodh Shukla	1886
9.	Dr. (Ms.) Ranjna Nagpal	2652
10.	Shri Girish Kumar Gaur	2653
11.	Shri Rajesh Gera	2702
12.	Shri Anjani Kumar Choubey	2705
13.	Ms. Aruna Chaba	2706

K. SUBBIAH, Director

No. 19(2)/2003-Pers.(i).—The President is pleased to appoint the following Scientist-E to officiate as Scientist-F in the pay scale of Rs. 16400-450-20000/- in National Informatics Centre with immediate effect and until further orders.



Sl. No.	Employee Name	Code
1.	Shri K.L. Narasinga Rao	122
2.	Dr. A. Rama Mohan Rao	156
3.	Ms. S. Bharathi	2677

K. SUBBIAH, Director

New Delhi-110003, the 8th December 2003

No. 19(3)/2003-Pers.(iv).—The President is pleased to appoint the following Scientist-D to officiate as Scientist-E in the pay scale of Rs. 14300-400-18300 in the National Informatics Centre with immediate effect and until further orders:—

Sl. No.	Employee Name	Code
1.	Shri R. Venkatesh	1228
2.	Shri P.V. Bhat	2084
3.	Smt. S. Jayanthi	2511

S. GOPALAKRISHNAN, Jt. Director (Pers.)

No. 19(3)/2003-Pers.(iii).—The President is pleased to appoint Shri Jose K. Puthu, Scientist-D (Employee Code : 1732) to officiate as Scientist-E in the pay scale of Rs. 14300-400-18300 in the National Informatics Centre with immediate effect and until further orders.

S. GOPALAKRISHNAN, Jt. Director (Pers.)

No. 19(3)/2003-Pers.(ii).—The President is pleased to appoint Smt. K. Sabitha, Scientist-D (Employee Code : 1229) to officiate as Scientist-E in the pay scale of Rs. 14300-400-18300 in the National Informatics Centre with immediate effect and until further orders.

S. GOPALAKRISHNAN, Jt. Dir. (Pers.)

No. 19(3)/2003-Pers.(i).—The President is pleased to appoint the following Scientist-D to officiate as Scientist-E in the pay scale of Rs. 14300-400-18300 in the National Informatics Centre with immediate effect and until further orders:

Sl. No.	Employee Name	Code
1.	Shri Ajay Sharma	187
2.	Shri Ramesh Chandra	235
3.	Shri Ravi Kant	236
4.	Shri Avijit Dutta	252

Sl. No.	Employee Name	Code
5.	Shri Suraj Parkash Rajpal	258
6.	Shri Piyush Goyal	272
7.	Shri Rajender Sethi	287
8.	Shri Sanjay Garg	973
9.	Shri Sudhir Chandra	1413
10.	Shri Inderpal Singh Sethi	1947
11.	Shri Rajiv Rathi	1950
12.	Smt. Alka Mishra	1975
13.	Shri K.S. Nagesh	2510
14.	Dr. (Smt.) Meenakshi Mahajan	3711
15.	Dr. Omkar Rai	3720
16.	Dr. Dev Ratan Shukla	3726

S. GOPALAKRISHNAN, Jt. Dir. (Pers.)

No. 19(3)/2003-Pers.(xiii).—The President is pleased to appoint Shri S.P. Kulshrestha, Scientist-D (Employees Code : 1690) to officiate as Scientist-E in the pay scale of Rs. 14300-400-18300 in the National Informatics Centre with immediate effect and until further orders.

S. GOPALAKRISHNAN, Jt. Dir. (Pers.)

No. 19(3)/2003-Pers.(xii).—The President is pleased to appoint Shri Syed Firoz Adil Naqvi, Scientist-D (Employee Code : 2110) to officiate as Scientist-E in the pay scale of Rs. 14300-400-18300 in the National Informatics Centre with immediate effect and until further orders.

S. GOPALAKRISHNAN, Jt. Dir. (Pers.)

No. 19(3)/2003-Pers. (xi).—The President is pleased to appoint Shri Ajay Singh Chahal, Scientist-D (Employee Code : 1948) to officiate as Scientist-E in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300 in the National Informatics Centre with immediate effect and until further orders.

S. GOPALAKRISHNAN, Jt. Dir. (Pers.)

No. 19(3)/2003-Pers. (x).—The President is pleased to appoint Shri Bharat Bhushan, Scientist-D (Employee Code : 291) to officiate as Scientist-E in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300 in the National Informatics Centre with immediate effect and until further orders.

S. GOPALAKRISHNAN, Jt. Dir. (Pers.)

No. 19(3)/2003-Pers. (ix):—The President is pleased to appoint Shri Deepak Bansal, Scientist-D (Employee Code : 1418) to officiate as Scientist-E in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300 in the National Informatics Centre with immediate effect and until further orders.

S. GOPALAKRISHNAN, Jt. Dir. (Pers.)

No. 19(3)/2003-Pers. (viii):—The President is pleased to appoint Shri Shailesh O. Shah, Scientist-D (Employee Code : 1662) to officiate as Scientist-E in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300 in the National Informatics Centre with immediate effect and until further orders.

S. GOPALAKRISHNAN, Jt. Dir. (Pers.)

No. 19(3)/2003-Pers. (vii):—The President is pleased to appoint Smt. K.J. Honrao, Scientist-D (Employee Code : 1871) to officiate as Scientist-E in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300 in the National Informatics Centre with immediate effect and until further orders.

S. GOPALAKRISHNAN, Jt. Dir. (Pers.)

No. 19(3)/2003-Pers. (vi):—The President is pleased to appoint Shri K. Narayanan, Scientist-D (Employee Code : 1754) to officiate as Scientist-E in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300 in the National Informatics Centre with immediate effect and until further orders.

S. GOPALAKRISHNAN, Jt. Dir. (Pers.)

No. 19(3)/2003-Pers. (v):—The President is pleased to appoint Shri Iniya Nehru E., Scientist-D (Employee Code : 1482) to officiate as Scientist-E in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300 in the National Informatics Centre with immediate effect and until further orders.

S. GOPALAKRISHNAN, Jt. Dir. (Pers.)

No. 19(3)/2003-Pers. (xiv):—The President is pleased to appoint Shri Indranil Talukdar, Scientist-D (Employee Code : 3714) to officiate as Scientist-E in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300 in the National Informatics Centre with immediate effect and until further orders.

S. GOPALAKRISHNAN, Jt. Dir. (Pers.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 10th December 2003

No. E(GP)/2002/1/56—The President is pleased to approve of the undermentioned 24 Group 'B' officers of Stores Department of Indian Railways, being appointed substantively to the Junior Scale of the Indian Railway Stores

Service with effect from 15th October, 2003 on the Railway/Production Unit noted against each:—

S. No.	Name of the Officer	Railway/Production Unit
--------	---------------------	-------------------------

Panel for 2002-03

S/Shri

1.	S.B. Mahajan	CR
2.	Megh Shyam (ST)	CR
3.	S.C. Marjit (SC)	ER
4.	Niranjan Roy (SC)	ER
5.	B.S. Rawat (SC)	NR
6.	S.K. Das (SC)	NER
7.	B.B. Paul	NFR
8.	M. Govindaraju (SC)	SR (Belongs to RWF)
9.	Mathew Daniel	SR (Belongs to RWF)
10.	A. Bikshapathi (ST)	SCR
11.	B.R. Mondal	SER
12.	A. K. Saiyed	SER
13.	B.S. Salunke (SC)	WR
14.	J.N. Vyas	WR

Panel for 2003-04

1.	V.S. Thomas	CR
2.	A.P. Dube	CR
3.	K.S. Goswami	ER (Belongs to CLW)
4.	A.F. Amalraj	SR (Belongs to RWF)
5.	B.S. Ranganath	SR (Belongs to RWF)
6.	T.D.R. Sivasubramaniam	SR
7.	A. Pradeep	SR
8.	Ch. G. Sundarshan Rao	SCR
9.	P. Patwari (SC)	SER
10.	P. Chakraborty	SER

R.R. BHANDARI, Secy. /Railway Board

The 12th December 2003

No. E(GP) 2000/1/56—The President is pleased to approve of the undermentioned 3 Group 'B' officers of Stores

Department of Indian Railways being appointed substantively to the Junior Scale of the Indian Railway Stores Service with effect from 1st July, 2002 on the Railway noted against each.

S.No.	Name of Officer	Railway
Panel for 2000-2001		
	S/Shri	
1.	R. M. Sutar	CR
2.	S. Ramakrishnan	SR
Panel for 2001-2002		
1.	A. K. Verma	ER

R.R. BHANDRI, Secy./Railway Board

No. E(GP)/2000/1/55—The President is pleased to approve of Shri M. Malleash Rao (SC), a group 'B' officer of S & T Department of South Central Railway, being appointed substantively to the Junior Scale of the Indian Railway Service of Signal Engineers (IRSSE) with effect from 15.3.2002, on that Railway, Shri M. Malleash Rao would, however, be entitled to monetary benefit in Jr. Scale w.e.f. 1.7.2002 only.

2. This is in supersession of Notification of even No. dated 18.2.2003.

R.R. BHANDARI, Secy./Railway Board

New Delhi, the 15th December 2003

No. 99/E(GR)/10/1—The President is pleased to appoint the following probationers in the Indian Railway Accounts Service with effect from the date noted against each :—

S.No.	Name (S/Shri/Ms.)	Date of Joining
1.	Ajeet Kumar Srivastava	10.01.2000
2.	Ajeet Kumar	20.09.1999
3.	Deepa Kotnis	20.09.1999
4.	Dhruva Jyoti Sen Gupta	20.09.1999
5.	Sanjay Bisariya	20.09.1999
6.	Amita Shukla	20.09.1999
7.	Vivek Prakash Tripathi	20.09.1999
8.	Randhir Sahay	20.09.1999
9.	Anurag Kapil	20.09.1999
10.	Ajai Srivastava	20.09.1999
11.	Shashi Kant Mishra	10.01.2000
12.	Vinay Hande	20.09.1999
13.	Zaigham Ali Khan	10.01.2000

S.No.	Name (S/Shri/Ms.)	Date of Joining
14.	Nilanjan Bhowmick	20.09.1999
15.	Subhashisha Nath	11.01.2000
16.	Abheejit Kumar Sinha	10.01.2000
17.	Rohit Raj Gupta	10.01.2000
18.	M.R. Viji	10.01.2000

MANEESH KUMAR, Jt. Dir. Estt. (GR)/  
Railway Board

No. 2001/E(GR)/1/33/I—The President is pleased to appoint the following probationers in the Railway Protection Force with effect from the date noted against each :—

S.No.	Name (S/Shri/Ms.)	Date of Joining
1.	Jitendra Srivastava	02.09.2001
2.	Md. Shadan Zeb Khan	24.12.2001
3.	Rakesh Kumar Mishra	02.09.2001
4.	Ruchira Chatterjee	24.12.2001
5.	Ashish Mishra	02.09.2001
6.	Apurva Agnihotri	24.12.2001
7.	Ashwini Kumar Agnihotri	02.09.2001
8.	Manchikalapati Suresh	10.09.2001
9.	Abhishek Kumar	08.02.2002
10.	Hemañt Kumar	24.12.2001
11.	S.R. Gandhi	24.12.2001
12.	Vinay Kumar	24.12.2001
13.	Shashi Kumar	02.09.2001

MANEESH KUMAR, Jt. Dir., Estt. (GR)

No. 99/E(GR)/1/33/I—The President is pleased to appoint the following probationers in the Railway Protection Force with effect from the date noted against each :—

S.No.	Name (S/Shri/Ms.)	Date of Joining
1.	Maheshwar Singh	20.09.1999
2.	Kamaljot	20.09.1999
3.	Achyuta Nand Jha	20.09.1999
4.	Deoraj Kumar Maurya	05.01.2000
5.	Ajit Kumar Barnwal	20.09.1999

MANEESH KUMAR, Jt. Dir., Estt. (GR)/  
Railway Board

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

New Delhi, the 5th December 2003

No. A-32013/6/2002-E.II—The President is pleased to appoint Shri T.R. Bhatia as Executive Engineer (Civil) in the Ministry of Road Transport and Highways, New Delhi in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 19.11.2003 (F.N.).

A.P. PADHI, Under Secy.

## MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 11th December 2003

No. 19/2003. (F. No.A-38012/1/2003-Adm.I).—Shri Ghansham Dass, Deputy Director, Central Electricity Authority and an officer of the Central Power Engineering

(Group A) Service, retired from service under the Government of India in the afternoon of 30th September, 2003 on attaining the age of superannuation.

V.C. KAJLA, Under Secy.

## MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 17th November 2003

No. A-11011/1/2003.CLS-I—The President is pleased to appoint Shri R.K. Chandolia, an NFSG Officer of IES (1984) as Welfare Commissioner (H'qrs) (Group-A) in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/- in the Ministry of Labour on deputation basis for a period of four years w.e.f. 29th October, 2003 (A.N.) or until further orders.

Y.P. SEHGAL, Under Secy.